

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 203]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 11 मई 2016—वैशाख 21, शक 1938

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 मई 2016

क्र. एफ-35-71-2015-दो-सी-2.—राज्य शासन, एतद्वारा, विधान सभा उप चुनाव 2016 मध्यप्रदेश विधान सभा क्षेत्र, 132-घोड़ाडोंगरी (अजजा), जिला बैतूल के लिए निम्नलिखित पुलिस अधिकारियों को शांति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु भारत निर्वाचन आयोग को प्रतिनियुक्ति पर सौंपता है, उन्हें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 28(ए) के लिये नामांकित अधिकारी माना जावेगा :—

1. पुलिस महानिदेशक, मध्यप्रदेश, भोपाल.
2. पुलिस महानिदेशक के अधीनस्थ निर्वाचन कार्य से जुड़े पुलिस मुख्यालय के अधिकारीगण.
3. रेंज पुलिस महानिरीक्षक, होशंगाबाद.
4. पुलिस अधीक्षक, जिला बैतूल व उनके अधीनस्थ समस्त पुलिस अधिकारी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजीव श्रीवास्तव, उपसचिव.